

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2024-चैत्र 16, शक 1946

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2024

फा. क्र.-1082-2024-इक्कीस-ब (दो).- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के 08 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रेषित अतिरिक्त/संशोधित प्रस्ताव संलग्न सूची के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को लोकसभा निर्वाचन 2024 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

## कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स, भोपाल 462 011

फा.क्र.9(क)-चार-2024-सेक्टर म.-4824

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024-सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां

स. क्र.	जिले का नाम	विवरण	पत्र क्र. एवं दिनांक	अधिकारियों की संख्या
1.	पन्ना	अतिरिक्त प्रस्ताव	1075 / सामान्य निर्वाचन / 2024, दिनांक 28.03.2024	49
2.	शहडोल	अतिरिक्त प्रस्ताव	18 / ई. / 25 / लो.स.निर्वा. / 2024 / 700, दिनांक 30.03.2024	43
3.	कटनी	अतिरिक्त प्रस्ताव	684 / सामा.निर्वा. / 2024, दिनांक 31.03.2024	24
4.	सिवनी	संशोधित प्रस्ताव	1196 / निर्वाचन / 2024, दिनांक 28.03.2024	16
5.	बैतूल	संशोधित प्रस्ताव	ईएल / 2024 / 1454, दिनांक 28.03.2024	31
6.	रायसेन	अतिरिक्त प्रस्ताव	776 / 23-भा.निर्वा. / 2024, दिनांक 31.03.2024	18
7.	उज्जैन	संशोधित प्रस्ताव	निर्वाचन / सेक्टर / 2024 / 987, दिनांक 28.03.2024	35
8.	धार	अतिरिक्त प्रस्ताव	1505 / निर्वाचन / 2024, दिनांक 02.04.2024	43
कुल				264

राजेश कुमार कौल, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश

क्रमांक-558-सामान्य निर्वाचन-2024

पन्ना, दिनांक 11 मार्च 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024-सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां

सरल क्रमांक	पूर्व प्रेषित सूची से आगे का क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापना	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
1	373	श्री एम.सी.शिवहरे	सहायक प्रबंधक	म.प्र.ग्रामीण सडक परि.पन्ना	सहायक प्रबंधक	संपूर्ण जिला हेतु
2	374	श्री रितेश बागोरा	कार्यक्रम सहायक	कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना	कार्यक्रम सहायक	संपूर्ण जिला हेतु
3	375	श्री एस.के.कन्नौजिया	मुख्य कार्यपाल अधिकारी	जिला सहकारी बैंक पन्ना	मुख्य कार्यपाल अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
4	376	श्री रतनदीप करौंसिया	जिला प्रबंधक	एम.पी.स्टेट एग्री पन्ना	जिला प्रबंधक	संपूर्ण जिला हेतु
5	377	श्री अमित श्रीवास्तव	शाखा प्रबंधक	जि.के.सहकारी बैंक पन्ना	शाखा प्रबंधक	संपूर्ण जिला हेतु

6	378	श्री गानवेन्द्र सिंह मुन्हेला	शाखा प्रबंधक	जि.के.राष्ट्रकारी बैंक पन्ना	शाखा प्रबंधक	संपूर्ण जिला हेतु
7	379	श्री मनोज अग्रवाल	अनुसंधान सहायक	जल संसाधन संगण पन्ना	अनुसंधान सहायक	संपूर्ण जिला हेतु
8	380	श्री इन्द्रपाल सिंह	जिला विपणन अधिकारी	म.प्र.राज्य विपणन पन्ना	जिला विपणन अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
9	381	श्री सूर्यभूषण मिश्रा	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा पन्ना	जिला शिक्षा अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
12	382	श्री टी.आर.पटेल	सहायक यंत्री	जल संसाधन पवई	सहायक यंत्री	संपूर्ण जिला हेतु
13	383	श्री राजेन्द्र सिंह	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अजयगढ़	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
14	384	श्री यमन सिंह कुशरे	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यान विस्तार अधिकारी कार्यालय शाहनगर	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
15	385	श्री हरिकान्त सेलवार	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यान विस्तार अधिकारी कार्यालय शाहनगर	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
16	386	श्री राम स्वरूप वर्मा	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यान विस्तार अधिकारी कार्यालय गुनौर	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
17	387	श्री पुरसोत्तम लाल प्रजापति	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यान विस्तार अधिकारी कार्यालय पवई	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
18	388	श्री ईश्वर दयाल अहिरवार	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यान विस्तार अधिकारी कार्यालय पवई	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
19	389	श्री ओम प्रकाश चौहान	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यान विस्तार अधिकारी कार्यालय पवई	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
20	390	श्री बनवारी कुशवाहा	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यान विस्तार अधिकारी कार्यालय अजयगढ़	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
21	391	श्री विनोद कुमार तिवारी	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यान विस्तार अधिकारी कार्यालय अजयगढ़	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
22	392	श्रीमती सोनाली आसाठी	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	सहायक संचालक उद्यानिकी खाद्य एवं प्रसंस्करण-पन्ना	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
23	393	श्री धर्मद्र कुमार सिंह	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	सहायक संचालक उद्यानिकी खाद्य एवं प्रसंस्करण-पन्ना	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
24	394	श्री संजीत सिंह बागरी	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	सहायक संचालक उद्यानिकी खाद्य एवं प्रसंस्करण-पन्ना	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु

25	395	श्रीमती आरती सिंह	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	राहायक शंघालक उद्यानिकी खाद्य एवं प्रसंस्करण-पन्ना	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
26	396	श्री एस एस बुंदेला	निरीक्षक	नगर परिषद देवेन्द्रनगर	निरीक्षक	संपूर्ण जिला हेतु
27	397	डा. विनय सिंह	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सालय रैपुरा	पशु चिकित्सा अधिकारी	संपूर्ण जिला हेतु
28	398	श्री रामगोपाल विश्वकर्मा	वनपाल	परिक्षेत्र रैपुरा दक्षिण वन मण्डल पन्ना	वनपाल	संपूर्ण जिला हेतु
29	399	श्री देवेन्द्र सिंह गौड़	वनपाल	परिक्षेत्र पन्ना	वनपाल	संपूर्ण जिला हेतु
30	400	श्री राकेश कुमार बागरी	वनपाल	परिक्षेत्र पन्ना	वनपाल	संपूर्ण जिला हेतु
31	401	श्री राजीव कुमार वर्मा	वनपाल	परिक्षेत्र पन्ना	वनपाल	संपूर्ण जिला हेतु
32	402	श्री रामेन्द्र प्रसाद बागरी	वनपाल	परिक्षेत्र देवेन्द्रनगर	वनपाल	संपूर्ण जिला हेतु
33	403	श्री गणेश प्रसाद सोनी	वनपाल	परिक्षेत्र पन्ना	वनपाल	संपूर्ण जिला हेतु
34	404	श्री दिलीप सिंह	वनपाल	परिक्षेत्र सलेहा	वनपाल	संपूर्ण जिला हेतु
35	405	श्री प्रदीप कुमार खरे	वनपाल	परिक्षेत्र मोहन्द्रा	वनपाल	संपूर्ण जिला हेतु
36	406	श्री आनंद कुमार गुप्ता	पटवारी	अमानगंज	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
37	407	श्री राजेश सिंह	पटवारी	महेवा	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
38	408	श्री मुकेश कुमार सोनी	पटवारी	सुनवानी	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
39	409	श्री सौरभ राय	पटवारी	सलेहा	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
40	410	श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा	पटवारी	देवेन्द्रनगर	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
41	411	श्री संतोष कुमार चिकवा	पटवारी	पन्ना	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
42	412	श्री सूर्य प्रकाश धूरिया	पटवारी	बृजपुर	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
43	413	श्री चारुचंदन मिश्रा	पटवारी	कृष्णगढ	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
44	414	श्री मनोज कुमार सुमन	पटवारी	पवई	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
45	415	श्री विनय कुमार गौतम	पटवारी	रैपुरा	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
46	416	श्री प्यारे सिंह गौड़	पटवारी	शाहनगर	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
47	417	श्री ब्रजेश सोनी	पटवारी	सिमरिया	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
48	418	श्री निखिल गौतम	पटवारी	अजयगढ	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु
49	419	श्री अमित प्रताप पटेल	पटवारी	गुनौर	पटवारी	संपूर्ण जिला हेतु

कृपया पूर्व प्रेषित के अतिरिक्त उपरोक्त लोकसेवकों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करने का कष्ट करें ।

हस्ता./—  
(नीलाम्बर मिश्र)  
अपर कलेक्टर  
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

क्र. 18-ई-25-लो.स.निर्वा.-2024-700

शहडोल, दिनांक 30 मार्च 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त करने के संबंध में संशोधित प्रस्ताव  
जिला - 11सीधी (वि.स.ब्यौहारी) 12-शहडोल (वि.स. जयसिंहनगर एवं जैतापुर)

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	श्री नुकेश श्रीवारत्त	क्षेत्रीय अधिकारी	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल	प्रथम श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
2	श्री के० के० मिश्रा	प्राचार्य	शा.कन्या उ. मा. वि. ब्यौहारी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
3	डा० दत्तवीर सिंह	पशु चिकित्सा अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
4	श्री मनोज केशरवानी	खण्ड श्रोत समन्वयक	बी.आर.सी. ब्यौहारी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
5	श्री प्रदीप द्विवेदी	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	आपूर्ति विभाग जयसिंहनगर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
6	श्री बालकरण बैगा	सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	जनपद पंचा. जयसिंहनगर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
7	श्री अरूण कुमार मिश्रा	उप यंत्री	लोक निर्माण विभाग ब्यौहारी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
8	श्री दिलीप कुमार मिश्रा	उपवन क्षेत्रपाल	उत्तर वनमंडल शहडोल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
9	श्री मनोरजन सिंह	सहा.पशु चिकि.क्षेत्र अधि०	पशु चिकित्सालय झारा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
10	श्री रंजीत सिंह सोरते	सहा.पशु चिकि.क्षेत्र अधि०	पशु चिकित्सालय सीठी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
11	श्री रामगणेश पटेल	वनपाल	उत्तर वनमंडल शहडोल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
12	श्री पवन मंड्री	वनरक्षक	उत्तर वनमंडल शहडोल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
13	श्री देवशरण प्रजापति	पटवारी	तहसील जयसिंहनगर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
14	श्री आशुतोष चतुर्वेदी	इंजीनियर	जनपद पंचायत ब्यौहारी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
15	श्री हेमन्त पटेल	इंजीनियर	जनपद पंचायत जयसिंहनगर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
16	श्री मनोज शुक्ला	इंजीनियर	जनपद पंचायत जयसिंहनगर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
17	श्री रामनरेश द्विवेदी	उप यंत्री	बाणसागर देवलोद	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
18	श्री आकाश कुमार पाण्डेय	उप यंत्री	बाणसागर देवलोद	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
19	श्री अनमोल ओकटे	उप यंत्री	बाणसागर देवलोद	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
20	श्री विधिन कुमार नट	वनरक्षक	उत्तर वनमंडल शहडोल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
21	श्री जवाहर सिंह	वनरक्षक	उत्तर वनमंडल शहडोल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
22	श्री जयन्त सिंह	वनरक्षक	उत्तर वनमंडल शहडोल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
23	श्री ओमप्रकाश नामदेव	वनरक्षक	उत्तर वनमंडल शहडोल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
24	श्री सन्तोष कुमार साहू	वनरक्षक	उत्तर वनमंडल शहडोल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
25	श्री सुरेन्द्र कुमार निगम	वनरक्षक	उत्तर वनमंडल शहडोल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
26	श्री अमर सिंह मराठी	ग्रा.उद्यान विकास विस्तार अधिकारी	उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी शहडोल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
27	श्री रामगोपाल पटेल	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग ब्यौहारी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
28	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत बुढ़ार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
29	श्री शारदा प्रसाद मिश्रा	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत बुढ़ार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
30	श्री रामजनराम भगत	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत बुढ़ार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
31	श्री लोकनाथ कोरी	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत बुढ़ार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
32	श्री प्रताप पैकरा	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत बुढ़ार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
33	श्री कल्याण सिंह	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत बुढ़ार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
34	श्री नर्मदा प्रसाद पटले	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत बुढ़ार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
35	श्री विकास बर्मन	समग्र सुरक्षा विस्तार अधि.	जनपद पंचायत बुढ़ार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
36	श्री रामकृष्ण भगत	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत बुढ़ार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
37	श्री आर० के० तिवारी	उप यंत्री	जनपद पंचायत बुढ़ार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये

38	श्री सत्यप्रकाश गुप्ता	उप यंत्री	जनपद पंचायत बुढ़ार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
39	श्री मुरारीलाल परत	सहायक पशु चिकि. क्षेत्र अधिकारी	पशु चिकित्सालय चुहिरी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
40	श्री भोला सिंह	सहा.पशु चिकि.क्षेत्र अधि०	पशु चिकित्सालय बरेली	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
41	श्री गंगा सिंह	सहा.पशु चिकि.क्षेत्र अधि०	पशु चिकित्सालय ओपीएम	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
42	श्री राजेन्द्र सिंह रैकवार	ग्रा.उ.विस्तार अधिकारी	उद्यान बुढ़ार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
43	श्री रणविजय सिंह	सहा.पशु चिकि.क्षेत्र अधि०	पशु चिकित्सालय ओपीएम	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
44	श्री नरेन्द्र कुमार बाथक	वनपाल	रंज गोहपारु	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
45	श्री जितेन्द्र सिंह	पटवारी	तहसील गोहपारु		सम्पूर्ण जिले के लिये
46	श्री अजुन सिंह	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत गोहपारु	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
47	श्री राजाराम सिंह	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत गोहपारु	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
48	श्री प्रमोद कुमार	सहा.पशु चिकि.क्षेत्र अधि०	पशु चिकित्सालय लालपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये

हस्ता./-

उप जिला निर्वाचन अधिकारी



## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

क्र. 684-सामा.निर्वा.-2024

कटनी, दिनांक 31 मार्च 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024-सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां

सेक्टर मजिस्ट्रेट/ जोनल अधिकारी के कार्य हेतु लगाये गये अधिकारी/ कर्मचारी की संख्या	SST के कार्य हेतु लगाये गये अधिकारी/ कर्मचारी की संख्या	FST के कार्य हेतु लगाये गये अधिकारी/ कर्मचारी की संख्या
13	4	7

## लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम- कटनी (व्ही.एस.टी., एस.एस.टी., एफ.एस.टी.)

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	वह अवधि जिराके लिए शक्तियां प्रदान की जाना है।
1	2	3	4	5	6	7
एस.एस.टी.						
1	श्री रामराज लोधी क.कोड-2102215 मो.नं. 8085712004	उच्च माध्यमिक शिक्षक	शास0उ0मा0वि- 0 बड़गाँव	उच्च माध्यमिक शिक्षक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
2	श्री दिनेश कुमार क.कोड 2110375 मो.नं. 8085779282	उच्च माध्यमिक शिक्षक	शास0 उच्च0 माध्यमिक विद्यालय खितौली	उच्च माध्यमिक शिक्षक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
3	श्री दिनीप कुमार प्रजापति क.कोड- 2110797 मो.नं.- 8435360889	वरिष्ठ अध्यापक	शास0 उच्च0 माध्यमिक विद्यालय गुरजीकला	वरिष्ठ अध्यापक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
4	श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता क.कोड 2109523 मो.नं. 9425453892	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	प्रोडेक्शन ऑफिस आयुध निर्माणी	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक

**लोकसभा निर्वाचन 2024**

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम- कटनी (व्ही.एस.टी., एस.एस.टी., एफ.एस.टी.)

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	यह अवधि जिसके लिए शक्तियां प्रदान की जाना है।
1	2	3	4	5	6	7
एफ.एस.टी.						
1	श्री उमेश चन्द वर्मा, क.कोड- 2109842 मो.नं. 9532406973	पी जी टी भूगोल	जवाहर नवोदय विद्यालय बहयारा	पी जी टी भूगोल	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
2	श्री अशोक कुमार सोनी क.कोड 2102371 मो.नं. 9993084315	उच्च माध्यम शिक्षक -	शास0 उच्च0 माध्यमिक विद्यालय कुठिया मोहंगया	उच्च माध्यम शिक्षक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
3	श्री ब्रजेश कुमार चौधरी क.कोड- 2102011 मो.नं.- 9893274602	उच्च माध्यमिक शिक्षक	शास0 उच्च0 माध्यमिक विद्यालय खितीली	उच्च माध्यमिक शिक्षक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
4	श्री संजय कुशवाहा, क.कोड 2111300 मो.नं. 9399611319	उच्च माध्यमिक शिक्षक	शासकीय मॉडल स्कूल पीटी	उच्च माध्यमिक शिक्षक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
5	श्री मुकेश कुमार पटेल क.कोड 2102685 मो.नं. 9669692884	उच्च माध्यम शिक्षक	शास0 उत्कृष्ट उच्च0 माध्यमिक विद्यालय बानक उमरिया पान	उच्च माध्यम शिक्षक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
6	श्री आशीष मंडलोई क.कोड- 2113813 मो.नं.- 9713036930	उपसंघी	म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल विश्राम बाबा मभाग कटनी	उपसंघी	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
7	श्री राम कृष्णा शुक्ला, क.कोड 2110469 मो.नं. 9893818626	उच्च माध्यमिक शिक्षक	शास0 उच्च0 माध्यमिक विद्यालय भरेला	उच्च माध्यमिक शिक्षक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक

## लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम- कटनी (सेक्टर ऑफिसर)

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	वह अवधि जिसके लिए शक्तियां प्रदान की जाना है।
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री प्रकाश राव सोनकुशले क.कोड- 2107530 मो.नं.- 9179570008	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा कालोनी झिंझरी कटनी	कार्यपालन यंत्री	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
2	डॉ जितेंद्र कुमार बंसल क.कोड- 2108723 मो.नं.- 9165075636	आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर	शासकीय आयुर्वेद औषधालय ठीमरखेड़ा जिला कटनी	आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
3	विमला मिंज क.कोड- 2107987 मो.नं.- 9425621173	सह - प्राध्यापक	शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी	सह - प्राध्यापक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
4	अनिल शाक्या क.कोड- 2108100 मो.नं.- 8085488129	ग्रंथपाल	शासकीय महाविद्यालय स्लीमनाबाद	ग्रंथपाल	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
5	अर्जुन कुमार पटेल क.कोड- 2105058	उच्च माध्यमिक शिक्षक	शा0उत्कृष्ट उ0मा0वि0 बहोरीबंद	उच्च माध्यमिक शिक्षक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक



6	मो.नं.- 9179109293 ज्योति गर्ग मो.नं.- 7489773048	सहायक यंत्री	म0प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल कटनी	सहायक यंत्री	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
7	श्री मनुराज सिंह क.कोड- 2113623 मो.नं.- 8982500228	उपयंत्री	दददा धाम गेट के सामने नर्मदा कॉलोनी झिंझरी	उपयंत्री	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
8	श्री चंचल गुप्ता क.कोड- 2113952 मो.नं.- 7007648211	सहायक अभियंता	ढीमरखेडा	सहायक अभियंता	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
9	श्री शैलेन्द्र सिंह क.कोड- 2107861 मो.नं.- 8839151638	संभागीय लेखा अधिकारी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड कटनी	संभागीय लेखा अधिकारी	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
10	श्री आसित वर्मा क.कोड- 2100614 मो.नं.- 7694849295	प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र	प्रबंधक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
11	अजय चतुर्वेदी क.कोड- 2107367 मो.नं.- 9993788980	सहायक प्रबंधक	बी , 51 माधवनगर समदडिया सिटी कटनी	सहायक प्रबंधक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
12	कीर्तिका कुहर क.कोड- 2110940	जिला युवा अधिकारी	प्रबंधन-फूल टाइम, राय	जिला युवा अधिकारी	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक

13	मो.नं.- 8882021658 श्री संजय वैसम्पयान क.कोड- 2114132 मो.नं.- 9827314030	वरिष्ठ वैज्ञानिक	कॉलोनी गली न. 2 कटनी (म.प्र.) कृषि विज्ञान केन्द्र, कटनी	वरिष्ठ वैज्ञानिक	संपूर्ण जिले के लिए	निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से मतदान समाप्ति तक
----	---	---------------------	---	---------------------	------------------------	---

हस्ता./-  
(अवि प्रसाद)  
कलेक्टर,  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

क्र. 1196-निर्वाचन-2024

सिवनी, दिनांक 28 मार्च 2024

### लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में संशोधित प्रस्ताव  
जिले का नाम - सिवनी

#### सेक्टर अधिकारी

#### लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-15 बालाघाट (विधानसभा क्षेत्र-114 बरघाट)

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	कार्य अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री दिनेश हनुमते	विकासखण्ड स्रोत समन्वयक	विकास खण्ड बरघाट	तृतीय श्रेणी (कार्यपालक)	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
2	श्री शरद तिवारी	सहायक परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केन्द्र सिवनी	द्वितीय श्रेणी	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
3	श्री डी.डी. उपाध्याय	सहायक परियोजना यंत्री	लोक निर्माण विभाग पीआईयू सिवनी	द्वितीय श्रेणी	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
4	सुश्री पूनम तुरकर	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग सिवनी	द्वितीय श्रेणी	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक

#### लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-15 बालाघाट (विधानसभा क्षेत्र 115-सिवनी)

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	कार्य अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	डॉ. दीना प्रजापति	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी	द्वितीय श्रेणी	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक

#### सेक्टर अधिकारी

#### लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-14 मण्डला (विधानसभा क्षेत्र 116-केवलारी)

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	कार्य अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री नीतेश सूर्यवंशी	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग सिवनी	द्वितीय श्रेणी	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
2	श्री संतोष तिवारी	उपयंत्री	नगर पालिका सिवनी	तृतीय श्रेणी (कार्यपालक)	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
3	श्री सी.एस. कुंजाम	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	जिला योजना मंडल सिवनी	तृतीय श्रेणी (कार्यपालक)	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
4	प्रो. सविता मसीह	प्रोफेसर	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी	प्रथम श्रेणी	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक

**सेक्टर अधिकारी**  
**लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-14 मण्डला (विधानसभा क्षेत्र 117- लखनादौन)**

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	कार्य अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री मनीष परते	सहा. प्राध्यापक	स्वामी विवेकानंद शास. स्नात्कोत्तर महाविद्यालय लखनादौन	द्वितीय श्रेणी	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
2	श्री राजेश कुमार सोनी	प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री	शास.उच्च.माध्य. विद्यालय गोरखपुर	द्वितीय श्रेणी	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
3	सुश्री स्मृति गजभिये	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा घंसौर	तृतीय श्रेणी (कार्यपालक)	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
4	श्री विकेश बिसेन	सहायक संचालक	पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण सिवनी	द्वितीय श्रेणी	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
5	श्री विनोद कुमार उइके	अनुविभागीय अधिकारी	जलसंसाधन संभाग क्र-1 सिवनी	द्वितीय श्रेणी	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
6	श्री गणपति तलवारे	प्राध्यापक	स्वामी विवेकानंद शास. स्नात्कोत्तर महाविद्यालय लखनादौन	द्वितीय श्रेणी	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
7	श्री प्रभुकर गजभिये	प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री	शास.उच्च. माध्य. विद्यालय गनेशगंज	द्वितीय श्रेणी	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला सिवनी	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक

हस्ता./—  
कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

क्रमांक-ईएल-2024-1454

बैतूल, दिनांक 28 मार्च 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संशोधित प्रस्ताव

जिला- बैतूल

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/ श्रेणी का नाम	क्षेत्र जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
सेक्टर अधिकारियों के लिए -					
1	श्री विपिन वामनकर	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन संभाग मुलताई	प्रथम श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
2	श्री योगेश बामने	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा प्रभात पट्टन	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
3	श्री विवेक तुमराम	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आमला	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
4	श्री विनोद बेलखेड़े	ग्रामीण उद्यान अधिकारी	ग्रामीण उद्यान अधिकारी चिचोली	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
5	डॉ. देवीसिंह सिसोदिया	सहायक प्रध्यापक	शास. महाविद्यालय घोड़ाडोंगरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
6	श्री रमेश कुमार	उ.मा. शिक्षक	शास. उच्च. माध्य. विद्या. घाटबिरोली	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
7	श्री राजेश पाटिल	उ.मा. शिक्षक	शास. उच्च. माध्य. विद्या. पारड़सिंगा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
8	श्री रविन्द्र कुमार नानोटे	उ.मा. शिक्षक	शास. कन्या हा. से. स्कूल मुलताई	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
9	श्री सुनिल परिहार	उ.मा. शिक्षक	शास. हा. से. स्कूल शिधोरा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
10	श्री राजीव कवड़े	उ.मा. शिक्षक	शास. उच्च. माध्य. विद्या. परमंडल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
11	श्री हेमंत सोनी	वनरक्षक	वन मण्डलाधिकारी उ. सा. बैतूल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
12	श्री विजयशंकर वर्मा	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	ग्रा.उ.वि. अधिकारी बैतूल बाजार	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
13	श्री गुणवंत माधनकर	उ.मा. शिक्षक	शास. कन्या हा. से. स्कूल बैतूल बाजार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
14	श्री लक्ष्मण काजले	वनपाल	वन मण्डलाधिकारी प. सा. बैतूल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
15	श्री संदीप बड़कुल	उ.मा. शिक्षक	शास. कन्या उ.मा. विद्या. भौरा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
16	श्री दुर्गादास पाठक	उ.मा. शिक्षक	शास. उ.मा.विद्या. कंसिया	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए

17	श्री रघुनाथ यादव	उ.मा. शिक्षक	शास. उ.मा.विद्या. धाबा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
18	श्री शिवपाल परते	वनरक्षक	वन मण्डलाधिकारी द. सा. बैतूल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
19	श्री गरीबदास यादव	उ.मा. शिक्षक	शास. हा. से. स्कूल चुनालोमा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
20	श्री अभिषेक उपाध्याय	वनपाल	वन मण्डलाधिकारी द. सा. बैतूल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
21	श्री धर्मेन्द्र चौकीकर	उ.मा. शिक्षक	शास. उच्च. माध्य. विद्या. परमंडल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
22	श्री पंकज लोनारे	उ.मा. शिक्षक	शास. कन्या उच्च. माध्य. विद्या. प्र. पट्टन	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
23	श्री धम्मन सिंह सिंसोदिया	उ.मा. शिक्षक	शास. हा. से. स्कूल खेड़लीबाजार	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
24	श्री धर्मेन्द्र खवसे	उ.मा. शिक्षक	शास. हा. से. स्कूल लालावाड़ी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
25	श्री रमाशंकर वर्मा	उ.मा. शिक्षक	शास. उच्च. माध्य. विद्या. शोभापुर कॉलोनी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
26	श्री अजयशंकर साहू	उ.मा. शिक्षक	शास. बालक हा. से. स्कूल सारनी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
27	श्री हेमराज पवार	उ.मा. शिक्षक	शास. हा. स्कूल बडोरा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
28	श्री जितेन्द्र वागदे	उ.मा. शिक्षक	उत्कृष्ट उ.मा.विद्या. घोड़ाडोंगरी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
29	श्री प्रदीप बखला	उ.मा. शिक्षक	शास. उच्च. माध्य. विद्या. जुवाड़ी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
30	श्री सुनिल कुमार यादव	उ.मा. शिक्षक	शास. उच्च. माध्य. विद्या. शाहपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
31	श्री विमल पाल	वनपाल	वन मण्डलाधिकारी द. सा. बैतूल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए

हस्ता./-  
 (नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)  
 कलेक्टर एवं  
 जिला निर्वाचन अधिकारी.



## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्रमांक-776-23-भा.निर्वा-2024

रायसेन, दिनांक 31 मार्च 2024

आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024-सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को  
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	श्री पंकज वोरसे	जिला प्रबंधक	नागरिक आपूर्ति निगम रायसेन	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
2	श्री आशीष पंथी	उपयंत्री	पी.एच.ई. बाड़ी	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
3	श्री डी.आर. अहिरवार	प्राचार्य	शा.हाई स्कूल कोटपार गनेश	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
4	श्री अपरित खरे	उपयंत्री	जनपद पंचायत उदयपुरा	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
5	श्री रामकुमार श्रीवास्तव	श्रम निरीक्षक	मंडीदीप	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
6	श्रीमती प्रतिभा सिंह	कार्यपालन यंत्री	सिंचाई विभाग रायसेन	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
7	श्री वीरेन्द्र सिंह ठाकुर	मंडी सचिव	बेगमगंज	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
8	श्री अपूर्व मिंज	श्रम निरीक्षक	मंडीदीप	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
9	श्री जीवन सिंह पवार	उपवन क्षेत्रपाल	रायसेन	स्थाई	सम्पूर्ण जिला

10	श्री प्रदीप लोधी	कार्यवाहक वनपाल	बेगमगंज	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
11	श्री नितिन तिलोथिया	उपयंत्री	पी.एच.ई. सिलवानी	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
12	श्री सुनील वडोले	उपयंत्री	लो.नि.वि. विभाग बेगमगंज	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
13	श्री मयंक दीक्षित	श्रम निरीक्षक	मंडीदीप	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
14	श्री पंकज जैन	उपयंत्री	नगर परिषद, बेगमगंज	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
15	श्री रजनीकांत पारे	सहकारिता निरीक्षक	सहकारी समितियां रायसेन	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
16	श्री राघवेन्द्र शर्मा	उपयंत्री	जनपद पंचायत सांची	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
17	श्री विजय ठाकुर	कार्यवाहक वनपाल	बेगमगंज	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
18	श्री दिलीप दुबे	कार्यवाहक वनपाल	बेगमगंज	स्थाई	सम्पूर्ण जिला

हस्ता./-  
कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र.-निर्वाचन-सेक्टर-2024-987

उज्जैन, दिनांक 28 मार्च 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम : उज्जैन

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिनके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	श्री विनोद शर्मा	आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री जगदीशचन्द्र शर्मा	उप आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
3	श्रीमती अलका कुमावत	आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
4	श्री उमेश शर्मा	आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
5	श्रीमती दीपिका गुप्ता	आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
6	श्री धीरेन्द्र सोलंकी	उप आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
7	श्री कमलेश दशोरा	उप आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
8	श्री उमेश कुमार सिंह	उप आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
9	श्री रामजी यादव	उप आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
10	श्रीमती अंजली श्रीवास्तव	उप आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
11	श्री एस.के.तिवारी	उप आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
12	श्री शीतांशु रथ	उप आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
13	श्री दीपक गुप्ता	आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
14	श्री हरिओम गुप्ता	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग तराना	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
15	श्री मूलचंद सैनी	उद्यान अधीक्षक	कार्यालय उद्यानिकी तराना	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
16	श्री बजरंग तोमर	(बी.आर.सीसी)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तराना	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
17	श्री विजय कुमार मरमट	मंडी सचिव	कार्यालय कृषि उपज मंडी तराना	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
18	श्री दिनेश कौल	सहा.प्राध्यापक	शा.महाविद्यालय तराना	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
19	श्री पंकज माहेश्वरी	प्राध्यापक	शा.महाविद्यालय तराना	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
20	श्री रवि पांचाल	उपयंत्री	नगर परिषद तराना	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
21	श्री धनेन्द्रसिंह	क्रीडा अधिकारी	शा.महाविद्यालय कायथा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
22	श्री धीरेन्द्र केरवाल	सहा.प्राध्यापक	शा.महाविद्यालय कायथा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए

जिले का नाम : उज्जैन

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिनके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
23	श्री अरविंद शर्मा	सहा.प्राध्यापक	शा.महाविद्यालय कायथा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
24	श्री शैलेन्द्र भारल	उप आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
25	श्री विश्वजीतसिंह परमार	विभागाध्यक्ष	प्राचीन भारतीय इतिहास विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
26	डॉ संजय कुमार सिंह	सहा.प्राध्यापक	शा.महाविद्यालय कायथा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
27	श्री गोपाल के. शर्मा	प्रोफेसर	शा. पोलिटैक्निक महाविद्यालय उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
28	श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा	आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
29	श्री राकेश खोती	तकनीकी अधिकारी	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
30	डॉ अचला शर्मा	आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
31	श्री बालकृष्ण आजना	उप आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
32	श्री अनिलकुमार जैन	आचार्य	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
33	श्री भारत सिंह	तकनीकी अधिकारी	विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
34	श्री मयंक सिंह	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन उपसंभाग महिदपुर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
35	श्री अजय बघेल	प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन उपसंभाग महिदपुर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए

हस्ता./-

(महेन्द्र सिंह कवचे)

अपर कलेक्टर

एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार, मध्यप्रदेश

क्र.-1505-निर्वाचन-2024

धार, दिनांक 2 अप्रैल 2024

**लोकसभा निर्वाचन 2024**

**विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव**

जिले का नाम :- धार

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है ।
1	श्री सुरेशचन्द्र पाठक,	सहा. राज. निरीक्षक	नगर परिषद राजगढ़	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री शंकरसिंह बागोड़,	सहा. राज. निरीक्षक	नगर पंचायत राजगढ़	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
3	श्री विनोद पाटीदार,	उपयंत्री	जनपद पंचायत सरदारपुर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
4	श्री कन्हैयालाल यादव,	सहायक ग्रेड 3	लोक निर्माण विभाग सरदारपुर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
5	श्री राजकुमार देवडा,	ग्रामीण विस्तार अधिकारी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी टाण्डा	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
6	श्री डीक्षांत सिंह,	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
7	श्री गौरवं जम्होरिया,	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
8	श्री रणद्योतसिंह डायर,	प्रभारी बी.ई.ई.	विकासखण्ड गंधवानी	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
9	श्री प्रताप चौहान	एचडीएफओ	एचडीएफओ धरमपुरी	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
10	श्री रिषभ सिसोदिया	सहायक ग्रेड 3	शासकीय महाविद्यालय धामनोद	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
11	श्री राकेश जेठीलाल	उपयंत्री	म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना धार	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
12	श्री नरेश भांगोदिया	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र धार	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
13	श्री सौरभ प्रताप सिंह	उप अंकेक्षण	उपायुक्त सहकारिता धार	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
14	श्री महेश वर्मा	उपयंत्री	म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना धार	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
15	श्री जनकलाल यादव	उपयंत्री	जनपद पंचायत धार	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
16	श्री अनोखीलाल गिरवाल	प्राथमिक शिक्षक	शा. बालक उमावि खाचरोदा	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
17	श्री अजय चौहान	शिक्षक	ज.शि. बदनावर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
18	श्री रामेश्वर परमार	शिक्षक	शा. बालक उमावि खाचरोदा	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
19	श्री कालुराम भुरिया	शिक्षक	संकुल खाचरोदा	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
20	श्री दिपक पालीवाल	मंडी निरीक्षक	कृषि उपज मंडी बदनावर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
21	श्री रामचन्द्र गोयल	प्रा. शिक्षक	शाउमावि ढोलाजा	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
22	श्री शैलेश पाटीदार	उमाशि	शाउमावि मुलथान	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
23	श्री नाथुलाल डायर	प्रा.शिक्षक	शाप्रावि सातरूण्डा	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
24	श्री नरेन्द्रसिंह सिसोदिया	मा. शिक्षक	संकुल भैसोला	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
25	श्री दुकासिंह कनासिया	मा. शिक्षक	संकुल भैसोला	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
26	श्री लखनलाल पटेल	उपयंत्री	जनपद पंचायत बदनावर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
27	श्री प्रदीप तिवारी	मा. शिक्षक	संकुल बखतगढ़	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
28	श्री ललित मारू	जनशिक्षक	वि धार सी बदनावर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
29	श्री नवीन शर्मा	प्रा. शिक्षक	प्रा.वि. अमोदिया बीआरसी बदनावर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
30	श्री उपेन्द्र उपाध्याय	प्रा. शिक्षक	मा.वि. चखतपुरा	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
31	श्री राजेन्द्र वास्केल	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मनावर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
32	श्री लोकाेश दरवाई	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 16 कुक्षी	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
33	श्री अनिल कुमार अहिरवार	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग कुक्षी	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
34	श्री प्रदीप मण्डलोई	उपयंत्री	जल संसाधन उप संभाग 1 कुक्षी	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
35	श्री देवेश कुमार भोयर	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 16 कुक्षी	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
36	श्री सुभम सावले	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मनावर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
37	डॉ. हर्ष वर्मा	सहा- पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	पशु चिकित्सालय मण्डव	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
38	श्री जगदीश प्रकाश गोहम	सहायक प्रबंधक	म-प्र-ग्रा-वि-प्रधिकरण कुशी	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
39	श्री केलाश मगर	परियोजना संचालक	कृषि विभाग धार	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
40	सुधी अश्विनी डावर	सहायक यंत्री	नगर पालिका धार	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
41	श्रीमती नीलम रावत	कार्यपालन यंत्री	ई-एण्ड-एम-तलकूप धार	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
42	काजल पाटीदार	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग बदनावर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
43	श्री राजकुमार दुबे	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	पशु चिकित्सालय कोद	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए

हस्ता./-  
कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.